

[अनुसूची I के उप-पैराग्राफ 6(1) देखें]

औसत परिपक्वता अवधि की गणना – उदाहरण

यह मानते हुए कि 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की ईसीबी राशि का लाभ उठाने और नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार चुकौती करने का प्रस्ताव है, तो ऐसी ईसीबी की औसत परिपक्वता अवधि की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:

आहरण/ चुकौती की तिथि (MM/DD/YYYY)	आहरण	चुकौती	शेष	दिनों की संख्या**	उत्पाद = (कॉलम 4 * कॉलम 5) / (ऋण राशि* 360)
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4	कॉलम 5	कॉलम 6
05/11/2007	0.75		0.75	24	0.0250
06/05/2007	0.50		1.25	85	0.1476
08/31/2007	0.75		2.00	477	1.3250
12/27/2008		0.20	1.80	180	0.4500
06/27/2009		0.25	1.55	180	0.3875
12/27/2009		0.25	1.30	180	0.3250
06/27/2010		0.30	1.00	180	0.2500
12/27/2010		0.25	0.75	180	0.1875
06/27/2011		0.25	0.50	180	0.1250
12/27/2011		0.25	0.25	180	0.0625
06/27/2012		0.25	0.00		
औसत परिपक्वता अवधि = (कॉलम 6 का योग)					3.2851

** गणना = दिन360 (पहली तिथि, दूसरी तिथि, 360)